

July 22, 2019

BSE LimitedP. J. Towers
Dalal Street, Fort **Mumbai - 400 001**

Dear Sirs,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai - 400 051**

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements

In continuation of our letter dated July 19, 2019, we enclose copies of the advertisements published on July 20, 2019, in <u>MINT (English)</u> and <u>HINDUSTAN (Hindi)</u> with respect to notice of the Board Meeting scheduled to be held on July 26, 2019.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company



Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223, UP, India

CIN: L24116UP1978PLC004624

L&T Finance looks to exit debt capital market biz

Gopika Gopakumar gopika.g@livemint.com MUMBAI

&T Finance Holding on Friday said the company was looking to exit its ₹8.660-crore structured finance and debt capital market (DCM) business. The decision to $run\,down\,the\,business\,comes\,in$ the wake of a mark-to-market hit on account of its exposure to Dewan Housing Finance Corporation Ltd.

L&T Finance has classified its structured finance and debt capital market as "defocused" book this quarter, while it turns its focuses on infrastructure finance and infra debt fund. The firm has exited its supply chain finance business.

Announcing its first quarter results, the company said its exposure to a specific HFC, part of its DCM business, saw a mark down of 50% on overall exposure of₹567 crore. It had to take the MTM hit after ratings of the HFC was downgraded.

L&TFinance said it is looking to focus on core businesses such as rural lending, housing finance and infrastructure finance, and will look to build two business segments, including SME and consumer loans.

"In order to concentrate better on businesses where L&T Finance has 'right to win', it has de-emphasized the structured finance and DCM book, where it is a marginal player, and made them part of the defocused book," the firm in a release.

The NBFC on Friday reported a 2% jump in net profit to₹549 crore in the June quarter against ₹538 crore a year ago.

Creditors' panel approves \$10 mn interim funds for Jet

Lenders also decide to allow bids from investors with a minimum net worth of ₹1,000 cr

Shayan Ghosh & Rhik Kundu

he Committee of Creditors (CoC) of Jet Airways (India) Ltd on Friday approved an interim funding of \$10 million (about ₹69 crore) for the airline, which will be used for the corporate insolvency resolution process. two people with direct knowledge of the matter said, requesting anonymity.

During the past two days, the airline's CoC, led by the State Bank of India (SBI), also voted on other resolutions, including calling for bids for bankrupt Jet Airways' asset sale and admission of claims by credit-

"The CoC has today voted in favour of a \$10 million interim debt infusion by bankers, which will help start the insolvency resolution process," said the first person.

"\$10 million will be used to hire people on contracts to verify claims made by different creditors of the airline," said the second person.

Jet Airways was grounded on 18 April.

On 20 June, the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) admitted Jet Airways under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) after lenders referred it to the bankruptcy tribunal.

"The CoC has also decided to allow bids (for Jet Airways) from investors with a minimum net worth of ₹1,000 crore," the first

PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED

CIN: L65929DL 1947PLC001240; Email: pnbfinanceindustries@gmail.com Regd Office : 1* Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

NOTICE

Reg: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Members are hereby informed that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendment(s) thereto ("IEPF Rules"), all shares in respect of

more shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection

ndividual notices to respective shareholders have been sent at their latest addresses available in the Company records, inter alia, providing the details of shares liable to be The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend on or before

October 26, 2019, failing which their shares shall be transferred to IEPF as per the procedure prescribed in the Rules. The Company has uploaded details of such shares due for transfer

The concerned shareholders would be entitled to claim the shares from IEPF authority by making an application in e-form IEPF-5, as prescribed under the aforesaid rules and the

In case the shareholders have any queries wrt subject matter and IEPF Rules, they may send their queries to the Company at mail id: pnbfinanceindustries@gmail.com or can contac Skyline Financial Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent), D-153A, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Phone: 011-26812682/83, Email

For PNB Finance and Industries Limited

JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,

District Amroha-244223, Uttar Pradesh

(CIN: L24116UP1978PLC004624)

Phone: +91-5924-267200

Website: www.jubl.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), NOTICE is hereby

given that a meeting of the Board of Directors of the Company

is scheduled to be held on Friday, July 26, 2019, inter-alia, to

consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated

Financial Results of the Company for the quarter ended

June 30, 2019 (the 'Financial Results') in accordance with

E-mail: investors@jubl.com

Shweta Saxen

Company Secretary

Fund (IEPF) in terms of IEPF Rules.

Date : July 19, 2019

JUBILANT

LIFESCIENCES

to IEPF on its website www.pnbfinanceandindustries.com.

same is available on IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.



The creditors' vote in favour of a debt infusion by bankers will help start the insolvency resolution process. REUTERS

person said, adding that advertisement seeking expressions of interest (EoI) will be published within a couple of days.

"The decision was taken so that

frivolous bidders stay away from

On 18 July, the resolution pro-

fessional (RP) appointed by lenders

said that the financial creditors

the process," the person added.

who have the first right to proceeds from Jet Airways' bankruptcy resolution, have claimed ₹10,231 crore, while 2,400 operational creditors have claimed ₹12,372 crore.

are under verification, while those of ₹1.380.82 crore were rejected. The steep claims push the airline closer to liquidation. A consortium of 26 bankers led

> **NCLT** will hear the insolvency case and the progress report by the resolution

concern for the past five The NCLT will hear the insolvency case and the progress report by the insolvency resolution

over ₹8,500 crore.

by SBI had approached the

tribunal to recover dues of

The lenders had been

trying to sell the belea-

guered airline as a going

professional on 23 July. Gopika Gopakumar contributed

IndiGo flies high in Ql amid falling-out between promoters

FROM PAGE 22

Boeing sees

grounding

bit.lv/2xVnH3V

Board of India (Sebi) and the ministry of corporate affairs (MCA) had sought explanations from the company on the charges of corporate governance lapses raised by Gangwal earlier this month.

If the differences are not settled quickly, the dispute could dent investor confidence in the airlines, delay decisions on kev issues, invite avoidable regulatory attention and force the carrier to cede space to rivals.

Dutta said the company was making a submission to Sebi on Friday and would respond end of next week

"We have said IndiGo many times, when it comes to overall strategy June quarter on growth and international higher sales and expansion, etc., the promoters are totally in sync. We have con-

firmed that again at the board meeting today. The only issue of disagreement is the agreement between the promoters. It has nothing to do with the company and the strategy,' Dutta said.

Industry experts said prolonged differences between two large shareholders could lead to uncertainty in the minds of the employees, vendors and customers.

"In the services industry, such issues also dent the brand and reputation of the company which takes years to rebuild Also, lenders, especially for a

high-capex business like airlines, start getting concerned and may pull back. The best solution would be to rework the terms of agreement, or one of them should exit," said Tarun Bhatia, managing director and head. South Asia. Kroll, a risk advisory firm.

IndiGo improved its bot tomline on account of higher sales and improved margins.

The fact that jet fuel prices remained softer and the domestic currency was firm in the June quarter compared to the year-ago period, also helped.

Sales jumped 44.7% from the year-ago period to ₹9,420 to the MCA's queries by the | crore in the June quarter.

IndiGo's sales and market share have been steadimproved its ily increasing in bottom line in the the recent past, following the on account of grounding of rival Jet Airways in improved margins

April. IndiGo's share in the domestic

market rose from 39.7% in January 2018 to 48.1% in June 2019, giving it the unique position of controlling half of India's air travel market. It ferried 6 million passengers during May 2019 compared to 4.6 million in January 2018. After posting net losses of ₹652 crore in the September 2018 quarter, on account of a weak rupee and high jet fuel prices, the carrier climbed back spectacularly in the subsequent two quarters to end the March 2019 quarter with ₹590 crore net profit, up by over 400% from a year ago.

INSOLVENCY RESOLUTION PLAN

THE interim funding of about ₹69 crore will be used for the corporate insolvency THE funds will be on contracts to verify claims made

CREDITORS have bids for let's asset sale and admission of

Dabur

Consolidated

No.

(b) Diluted

The RP of Jet Airways said out of the ₹24,887 crore, it has admitted claims of ₹8,462.79 crore from the financial creditors.

Claims of about ₹15,044 crore







Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2019 **Previous year** ended (30/06/2019) **Particulars** ended (31/03/2019) 2,273.29 8,533.05 Revenue from operations Net Profit for the period (before tax, exceptional items 462.92 1,799.25 and share of profit/(loss) of joint venture

402.16 Net Profit for the period before tax (after exceptional 443.24 1,724.87 402.38 items and share of profit/(loss) of joint venture) Net Profit for the period after tax, exceptional items and 363.81 1,446.25 330.00 share of profit/(loss) of joint venture Net Profit for the period after tax (after non controlling interest, share of profit/(loss) of joint venture and 363.12 1,442.33 329.22 exceptional items) Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other 1,444,30 374.98 320.66 comprehensive income (after tax) } Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1 each) 176.71 176.63 176.63 5,455.05 8 Other equity Earnings per share (Face value of ₹ 1 each) (not annualised) (a) Basic 2.06 8.17 1.87

> King George's Medical University U.P., Lucknow **Re E-tender Inviting Notice**

Online bid are invited under two e-bid systems latest by 26/07/2019 for the purchase and rate contract of consumable items for installed equipment in various department from the original manufacturers or their authorized Indian Agents on the terms and conditions as per tender

document. Tender will be available on e-portal

2.05

Date: 19-07-2019

Finance Officer

8.14

Additional information on standalone financial results is as follows Corresponding Quarter Previous year quarter ended (30/06/2018) ended (31/03/2019) (30/06/2019) Revenue from 1,473.10 1,628.27 6,273.19 Profit before tax 326.33 1,503.35 293.20 Profit after tax 257.81 1,264.29 230.56

The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2019 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 June, 2019 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.hseindia.com) and Company's website

For and on behalf of Board of Directors

Dr. Anand C. Burman

Place: New Delhi Date: 19 July, 2019

Place : Gurugram

Date: 19.07.2019

Correspondin

quarter ender (30/06/2018)

2080.68

1.86

DIN: 00056216

A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.jubl.com and the websites of the Stock Exchanges - NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

Regulation 33 of the Listing Regulations.

For Jubilant Life Sciences Limited

Place: Noida Raiiv Shah Date: July 19, 2019 Company Secretary

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) PLANT SDW S/E SRINIWASPURI, NEW DELHI - 110065

Press NIT No. 12 (2019-20) Name of Work **Estimated Cost** Date of release Last date/time of receipt of tender of tender in e-procurement hrough e-procure solution solution Removal of sludge from sludge drying 44,91,473/ 08.08.2019 19.07.2019 beds of 16 MGD plant at Okhla S.T.P. 2019_DJB_176619_1 up to 03.00 PM

Further detail in this regard can be seen at http://delhi.govtprocurement.com

S. No.

ISSUED BY P.R.O. (WATER) **EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) PLANT SDW S/E**



Notice No.: 23/PS/FO/e-tender/19-20

http://etender.up.nic.in

The Food Corporation of India invites applications for two posts of Genera Manager (Engineering) in the IDA scale of Rs. 1,00,000-2,60,000 (equivalent CDA pattern Pay Scale of 1,23,100-2,15,900 Pay Matrix 13 of 7th CPC) on Deputation/permanent Absorption basis. Applicant may please refer to the detailed advertisement published in 'Employment News/Rojgar Samachar dated 20 July 2019 or in the FCI website http://www.fci.gov.in. Applications must be submitted alongwith necessary documents within 30 days of the date of publication of this advertisement. Corrigendum, if any, will be uploaded on Executive Director (Pers.)

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934 Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana); **Tel.:**+91-124-4783000, Fax:+91-124-2341359

Email: pgupta@munjalshowa.net; Website: www.munjalshowa.net **NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, July 31, 2019, inter-alia to consider and adopt the unaudited financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2019.

The Notice is also available on the Website of the Company www.munjalshowa.net and that of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). By order of the Board

For Munjal Showa Limited (Geetanjali Sharma) Company Secretary

आजम खा को भूमाफिया बताने पर सपा ने किया कड़ा ऐतराज

सदन में दूसरे दिन भी हंगामा

विधान सभा

लखनऊ **विशेष संवाददाता**

सोनभद्र में दस लोगों की हत्या और आजम खां को भमाफिया करार देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों को न मानते हुए तख्ती-बैनर लेकर वेल में आ गए और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। नतीजतन, प्रश्न प्रहर हंगामे और शोर-शराबे की भेंट चढ गया। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 12.35 मिनट तक के लिए तीन बार स्थगित करनी पड़ी।

सदन की कार्यवाही जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने सोनभद्र का मुद्दा उठाते हुए चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नरसंहार हो रहे हैं। अपहरण हत्याएं हो रही हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को भू-माफिया बनाया जा रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग की। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में घोषणा की कि नेता

जिला पंचायत सम्भल

जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर हेतु ठेकेदारी पंजीकरण वर्ष २०१९-२० तक लिए सुचना

03.06.2019 द्वारा जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर भवन के निर्माण हेतु नवीन

ठेकेदारों के पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित दिनांक 18.06.2019

तक किये गये थे। परन्तु कोई पात्र आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ जिसके

कारण पुनः दिनांक 30.07.2019 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से

आमंत्रित किये जाते हैं स्थान, शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। विज्ञप्ति की सूचन

http://sambhal.nic.in पर देखी जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त

आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। पंजीकरण मा० अध्यक्ष. जिल

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, जयपुर)

ई-ऑक्शन (होर्डिंग) विज्ञप्ति सं. 13/19 नगर निगम जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निजी/व्यावसायिक भवनों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों प विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु ई-ऑक्शन निम्नानुसार किया जाना है:-

ई-ऑक्शन कार्यक्रम शर्ते, अमानता राशि, भागीदारी राशि, तथा ई-नीलामी बिजनेस रूल्स आदि की जानकार्र

हेतु नीलामी साईट वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं http://smartrajapp.urban.rajasthan. gov.in में (E-Auction) पर देखी जा सकती है तथा इसी साईट पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इच्छुव

. फर्में/व्यक्ति निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 1,000/- (एक हजार रूपये) जमा करवाकर, पंजीयन करवाक ई-नीलामी में भाग ले सकते है। किसीभी प्रकार की तकनीकी समस्या/अथवा जानकारी हेतु श्री वैभव, प्रोग्रामर

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल

प्रात 11.00 वजे से

5.30 बजे तक

(अंतिम 15 मिनव

में बोली लगने की

5.30 बजे तक

(अंतिम 15 मिनट

में बोली लगने की

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम) नगर निगम जयपुर

स्थिति में) की जायेगी

स्थिति में) की जायेगी

पंचायत की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

विज्ञापन का नाम

भवनों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर विज्ञापन शुल्क वसूर्ल

हवामहल पश्चिम जोन (चारदीवारी क्षेत्र को छोड़कर)

जयपुर नगर निगम के समस्त जोन क्षेत्र का ई-ऑक्शन

किया जाना है। जिसकी अमानता राशि 55,00,000/

भवनों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर विज्ञापन शुल्क वसूर्ल

हवामहल पश्चिम जोन (चारदीवारी क्षेत्र को छोडकर)

जयपुर नगर निगम के समस्त जोन क्षेत्र का ई-ऑक्शन

किया जाना है। जिसकी अमानता राशि 55.00.000/

रूपये है एवं भागीदारी शुल्क 50,000/- रूपये है।

दरभाष नं. 8764880056. 8875403031 पर सम्पर्क कर सकते है।

रूपये है एवं भागीदारी शुल्क 50,000/- रूपये है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेत निजी /व्यावसायिक

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निजी/व्यावसायिक

इस कार्यालय के पत्रांक 65/जि०पं०/ला०अनु०/2019-20 दिनांक



नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतत्व में शकवार को समाजवादी पार्टी के विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहंचे।

सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य देना चाहते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को निर्देशित किया कि नेता सदन सर्वोच्च होते हैं। परंपरा है कि जब नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन बोल रहे हों तो सदस्य अपने आप बैठ जाते हैं। उन्होंने राम गोविंद चौधरी से कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हो जाएगी, पहले नेता सदन को अपनी बात रखने दें। इसी बीच बसपा नेता लालजी वर्मा खड़े हो गए और उन्होंने सोनभद्र हत्याकांड के साथ ही प्रदेश में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीजी वाराणसी जोन व विंध्याचल मंडलायुक्त की जांच समिति की रिपोर्ट पर शासन ने त्वरित कार्रवाई की है। समिति की जांच रिपोर्ट मे पाया गया है कि सीआरपीसी की धारा-145 के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम घोरावल रिपोर्ट काफी दिनों तक दबाए रहे। इसी तरह सीओ घोरावल के अलावा इंस्पेक्टर घोरावल ने भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। घोरावल थाने के बीट सब-इंस्पेक्टर और सिपाही ने भी उचित कार्रवाई नहीं की। लिहाजा, एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई व बीट इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है।

आजम के मुद्दे पर विधान परिषद कई बार स्थगित

लखनऊ । विधान परिषद में आज

दसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो संका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने सपा सांसद आजम खां पर फर्जी मकदमें दर्ज कर उन्हें भ-माफिया घोषित किए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही मांग की कि इस प्रकरण की जांच के लिए सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाए। इस पर नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने कहां कि सर्वदलीय समिति की अभी कोई जरूरत नहीं है। सरकार की नीति और नीयत साफ है। इस पर सपा के सभी सदस्य आजम खां के पक्ष में तथा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वेल में आ गए। भारी हंगामे व शोरगुल के बीच सभापति रमेश यादव संपा सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने की अपील करते रहे लेकिन सपा के सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन में प्रश्न प्रहर शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अहमद हंसन ने आजम खां का मामला पुन उढाया

दीपक सिंघल के टेप की फोरेंसिक जांच होगी

लखनऊ । लोकायक्त ने प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस एवं पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल के बहुचर्चित आडियो टेप की फोरेंसिक साइंस एवं आडियो विशेषज्ञों से जांच कराने की संस्तुति की है।

यह संस्तुति लोकायुक्त की उस

वार्षिक रिपोर्ट में की गई है जो शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पेश की गई। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकर के परिवाद पर जांच के बाद लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा है कि यदि आडियो टेप में आवाज वास्तव में तत्कालीन प्रमुख सचिव नियुक्ति दीपक सिंघल की पाई जाती है तो यह बेहद गंभीर बात है। तब उन्हें पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के लिए दोषी माना जा सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने वार्ता का आडियो क्लिप यू-ट्यूब पर उपलब्ध होने का उल्लेख किया है।

यूनीफार्म निविदा आमंत्रण सूचना . प्रा० वि० बहादुरगंज, वि०क्षेत्र रामपुर), शासनादेशानुसार निःशुल्क यूनीफा वितरण हेतु प्राथमिक विद्यालय बहादुरगंज वि॰ क्षेत्र-सैदनगर (रामपुर) में पंजीकृत 188 विद्यार्थिय हेतु 2 सैट यूनिफार्म क्रय (कपड़ा एवं सिलाई) क्रय हेत रजिस्टर्ड फर्मीं से निविदाएं 23/07/19 तक आमंत्रित 10:00 बजे तक की जाती हैं। जिन्हें

> विद्यालय प्रबंध समिति अनीता रानी प्रा०वि०इण्डा, चमरौआ, रामप्

23/07/19 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी

स्वतंत्रदेव में संगठनात्मक कौशलः योगी आदित्यनाथ

लखनऊ **प्रमुख संवाददाता**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह का प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनना आम कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र देव में संगठनात्मक कौशल कूट-कूट कर भरा है। उन्होंने आशा प्रकट की कि कार्यकर्ता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अब दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर आयोजित नए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अभिनन्दन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देव ने परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में अपने सवा दो साल के कार्यकाल में परिवहन निगम को घाटे



से उबार कर लाभकारी निगम बना दिया। निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मताबिक वेतन दिला दिया।

मुख्यमंत्री ने उनके संगठन के प्रति निष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात के विधानसभा में चुपचाप अपना काम करते दिखे तो मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने गुना जैसी भाजपा के लिए असंभव सी दिखने वाली सीट को पार्टी की झोली में डालने में अहम भूमिका निभाई।

भाजपा कुछ भी कर ले हम डरेंगे नहीं: माया

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बसपा और वह खुली किताब हैं। भाजपा कुछ भी कर ले वह घबड़ाने वाली नहीं हैं। भाई आनंद पर हुई कार्रवाई पर मायावती ने कहा है कि भाजपा अपने गिरेबान में भी झांके। मायावती ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस जबर्दस्त जातिवादी पार्टी जातिवादी पार्टी व संगठन हैं। इनके द्वारा देश को जातिवादी मानसिकता में फंसाया जा रहा है। बसपा लोकतंत्र के लिए संघर्ष करती रहेगी। आरोप लगाया है कि भाजपा दलितों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। भाई आनंद पर हुई कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने नेताओं की भी जांच कराए कि राजनीति में आने से पहले क्या

22.07.19 तक

20.07.19

20.07.19

21.07.19

20.07.19

20 एवं 21.07.19

20.07.19

20.07.19

20.07.19

20.07.19

20 एवं 21.07.19

21.07.19

21.07.19

21.07.19

20.07.19

21.07.19

21.07.19 तक

21.07.19

साहिबाबाद–हज़रत निज़ामुद्दीन

ह. निजामुद्दीन—साहिबाबाद—

<u>गाजियाबाद</u>

साहिबाबाद-दिल्ली शाहदरा-दिल्ली ज

साहिबाबाद-हज़रत निज़ामुद्दीन

साहिबाबाद-हज़रत निज़ामुद्दीन

हजरत निजामुद्दीन-साहिबाबाद

दिल्ली जं.–दिल्ली

शाहदरा-साहिबाबाद

थे और अब क्या हैं?



दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय अधिशासी अभियंता (एन ई) ॥ आर-पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 95

प्रेस नि.आ.सू. सं. 16 (2019-20) कार्य का नाम निविदा के लिए -पापण समाधान दाः ई-प्रापण समाधान में निविदा जारी निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि/समय करने की तिथि करावल नगर, एसी-70 के अधीन करावल नगर रोड में 4035620.00 81000.00 500.00 18.07.2019 05.08.2019 को अप ०२ ३० बजे तब जरावल नगर गांव के आउट फॉल कनेक्शन का निर्माण निविदा आई डी सं. 2019 DJB 176578 1

न.सं.अधि.(जल) द्वारा जार्र ह0/- अधिशासी अभियंता (एनई)-

कनीकी विनिर्देश और विशेष शर्तों समेत सभी नियम एवं शर्तें दिल्ली सरकार की वेबसाइट <u>https://govtprocurement.delhi.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

विज्ञा.सं.ज.सं.वि. 188/2019-20

तिलक ब्रिज स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलगाड़ियों का अस्थायी निरस्तीकरण / मार्ग परिवर्तन / आंशिक निरस्तीकरण / पुनर्निर्धारण एवं विनियमन

उत्तर रेलवे द्वारा अवसंरचना मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली एवं तिलक ब्रिज स्टेशनों को 5वीं एवं 6ठी लाइन से जोड़ने हेतु तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर नानॅ–इंटरलॉकिंग कार्य किया जायेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा दिनांक 22.07.2019 तक ट्रैफिक ब्लॉक्स लिये जायेंगे परिणामस्वारूप, निम्नलिखित रेलगाडियाँ उनके समक्ष दर्शायी गई तिथियों पर निम्नानुसार प्रभावित रहेंगी:–

रेलगाड़ी संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	निरस्तीकरण की तिथि (याँ)
रलगाड़ा सख्या एवं रलगाड़ा का नाम	। निरस्ताकरण का तिथि (या) । (प्रारंभिक स्टेशन से)
12419 / 12420 लखनऊ—नई दिल्ली—लखनऊ गोमती एक्सप्रेस	21.07.2019
12459 / 12460 नई दिल्ली—अमृतसर—नई दिल्ली एक्सप्रेस	21.07.2019
14206 दिल्ली जं.—फैज़ाबाद एक्सप्रेस	20.07.2019
14208 दिल्ली जं. —प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस	20.07.2019
14211 / 14212 आगरा छावनी—नई दिल्ली—आगरा छावनी इंटरसिटी एक्स.	21.07.2019
14315 / 14316 बरेली —नई दिल्ली—बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस	21.07.2019
14323 / 14324 नई दिल्ली—रोहतक—नई दिल्ली एक्सप्रेस	21.07.2019
14521 / 14522 दिल्ली जं.—अम्बाला छावनी—दिल्ली जं. एक्सप्रेस	21.07.2019
14681 / 14682 नई दिल्ली–जलंधर शहर–नई दिल्ली एक्सप्रेस	21.07.2019
15035 / 15036 दिल्ली जं.—रामनगर / काठगादाम—दिल्ली जं. उत्तराँचल सम्पर्क क्रान्ति एक्स.	20 एवं 21.07.2019
1956६ देहरादून—ओखा उत्तराँचल एक्सप्रेस	21.07.2019
14085 / 14086 तिलक ब्रिज–सिरसा–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस	20, 21 एवं 22.07.2019
64088 हज़रत निज़ामुद्दीन—नई दिल्ली ई.एम.यू.	21.07.2019 तक
51911 / 51912 दिल्ली जं.—सहारनपुर—दिल्ली जं. पैसेंजर	20.07.2019
54055 / 54056 मुरादाबाद–दिल्ली जं. –मुरादाबाद पैसेंजर	20.07.2019
64012 / 64013 / 64014 / 64016 शकूर बस्ती— पलवल—शकूर बस्ती ई.एम.यू.	21.07.2019
64018 शकूर बस्ती—नई दिल्ली ई.एम.यू.	20.07.2019
64031 / 64032 / 64034 / 64036 गाजियाबाद – शकूर बस्ती – गाजियाबाद ई.एम.यू.	21.07.2019
64053 पलवल—गाजियाबाद ई.एम.यू.	21.07.2019
64071 बल्लभगढ़–शकूर बस्ती ई.एम.यू.	20.07.2019
64075 / 64077 / 64078 / 64080 पलवल—नई दिल्ली—पलवल ई.एम.यू.	21.07.2019
64082 नई दिल्ली—पलवल ई.एम.यू.	20.07.2019
64087 हज़रत निज़ामुद्दीन—नई दिल्ली ई.एम.यू.	21.07.2019
64091 हज़रत निज़ामुद्दीन–हज़रत निज़ामुद्दीन ई.एम.यू.	21.07.2019
64093 हजरत निजामुद्दीन–शकूर बस्ती ई.एम.यू.	21.07.2019
64095 नई दिल्ली—शकूर बस्ती ई.एम.यू.	20.07.2019
64097 नई दिल्ली—शकूर बस्ती ई.एम.यू.	21.07.2019
64401 / 64406 / 64408 गाजियाबाद – दिल्ली जं. – गाजियाबाद ई.एम.यू.	20.07.2019
64403 गाजियाबाद—दिल्ली जं. ई.एम.यू.	21.07.2019
64089 हज़रत निज़ामुद्दीन–हज़रत निज़ामुद्दीन ई.एम.यू.	22.07.2019 तक
64411 साहिबाबाद—दिल्ली जं. ई.एम.यू.	20.07.2019
64418 दिल्ली जं.–गाजियाबाद ई.एम.यू.	20.07.2019
64423 / 64424 / 64425 / 64427 / 64430 / 64432 गाजियाबाद— नई दिल्ली गाजियाबाद ई.एम.यू.	21.07.2019
64426 नई दिल्ली –गाज़ियाबाद ई.एम.यू.	20.07.2019
64431 गाज़ियाबाद—नई दिल्ली ई.एम.यू.	20.07.2019
64439 गाज़ियाबाद—दिल्ली जं. ई.एम.यू.	20.07.2019
64491 / 64492 पलबल—नई दिल्ली—पलबल ई.एम.यू.	20.07.2019
64493 / 64494 पलवल–हज़रत निजामुद्दीन–पलवल ई.एम.यू.	20.07.2019
64569 / 64570 कोसी कलाँ – हज़रत निज़ामुद्दीन – कोसी कलाँ ई.एम.यू.	20.07.2019
64434 नई दिल्ली–गाज़ियाबाद ई.एम.यू.	20.07.2019
64420 गाज़ियाबाद–हज़रत निज़ामुद्दीन ई.एम.यू.	21.07.2019
64567 / 64568 बुलंदशहर—तिलक ब्रिज—बुलंदशहर ई.एम.यू.	20.07.2019

64420 गाज़ियाबाद—हज़रत निज़ामुद्दीन ई.एम.यू.			21.07.2019	
64567 / 64568 बुलंदशहर—तिलक ब्रिज—बुलंदशहर ई.एम.यू.		20	20.07.2019	
रेलगाड़ियों का म	ार्ग परिवर्तन			
रेलगाड़ी संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	परिवर्तित मार्ग		तिथि (याँ) (आरंभिक स्टेशन से)	
12204 अमृतसर—सहरसा गरीब रथ	अम्बाला—सहारनपुर—मु	20 एवं 21.07.19		
12274 नई दिल्ली—हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस	दिल्ली जं.		20.07.19	
12392 नई दिल्ली—राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस	दिल्ली जं.		21.07.19	
12398 नई दिल्ली—गया महाबोधि एक्सप्रेस	दिल्ली जं.		21.07.19	
12484 अमृतसर—कोच्चुवेली एक्सप्रेस	साहिबाबाद–दिल्ल शाहदरा–दिल्ली जं.–नः	ई दिल्ली	20.07.19	
12501 गुवाहाटी—नई दिल्ली पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस	साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जं.–नई दिल्ली		20.07.19	
12561 जयनगर—नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस	साहिबाबाद—दिल्ली शाहदरा—दिल्ली जं.—नई दिल्ली		20.07.19	
12562 नई दिल्ली—जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस	नई दिल्ली–दिल्ली जं. दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद		20.07.19	
12566 नई दिल्ली—दरभंगा बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस	दिल्ली जं.		21.07.19	
12581 मंडुवाडीह—नई दिल्ली सुपरफास्ट	साहिबाबाद—दिल्ल शाहदरा—दिल्ली जं.—नः		20.07.19 तक	
12582 नई दिल्ली—मंडुवाडीह सुपरफास्ट	नई दिल्ली–दिल्ली दिल्ली शाहदरा–साहि		20.07.19	
12715 हजूर साहिब नान्देड–अमृतसर सचाखंड एक्सप्रेस	ओखला–दिल्ली सफदरजंग–आदर्श		20.07.19	
14003 मालदा टाउन—नई दिल्ली एक्सप्रेस	साहिबाबाद—दिल्ली शाहदरा दिल्ली जं.—नई दिल्ली		20.07.19	
14258 नई दिल्ली—वाराणसी काशी वश्विनाथ एक्सप्रेस	दिल्ली जं.		21.07.19	

नई दिल्ली –दिल्ली 64095 नई दिल्ली—शकूरबस्ती ई.एम.यू. किशनगंज-शकूरबस्ती अम्बाला–सहारनपुर-15708 अमृतसर–कटिहार एक्सप्रेस मुरादाबाद—लखनऊ मेरठ सिटी–खुर्जा 18238 अमृतसर–गेवरा रोड छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अलीगढ़-मितावली-आगरा कैंट आदर्श नगर-दिल्ली 18508 अमृतसर—विशाखापट्नम एक्सप्रेस सफदरजंग–ओखला ओखला–दिल्ली 19023 मुंबई सेन्ट्रल—फिरोजपुर छावनी जनता एक्सप्रेस सफदरजंग–शकूर बस्ती शकूर बस्ती–दिल्ली 19024 फिरोजपुर छावनी—मुंबई सेन्ट्रल जनता एक्सप्रेस सफदेरजंग–ओखला साहिबाबाद-दिल्ली शहदरा 20801 इस्लामपुर—नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस दिल्ली जं.—नई दिल्ली नई दिल्ली-दिल्ली जं. 20802 नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस दिल्ली शहदरा-साहिबाबाद ओखला–दिल्ली 22125 नागपुर—अमृतसर ए.सी.एक्सप्रेस <u>सफदरजंग–आदर्श नगर</u> ओखला–दिल्ली 22457 हजूर साहिब नान्देड-अम्ब अन्दोरा सुपरफास्ट सफदरजंग–आदर्श नगर हजरत निजामुद्दीन-दिल्ली 51901 आगरा छावनी –दिल्ली जं. पैसेंजर शाहदरा—दिल्ली जं.

64052 गाजियाबाद-पलवल ई.एम.यू

64109 दनकौर–शकुर बस्ती ई.एम.य

64055 / 64057 पलवल-गाजियाबाद ई.एम.यू.

64167 पलवल-नई दिल्ली-ट्रण्डला ई.एम.यू

64168 ट्रण्डला-नई दिल्ली-पलवल ई.एम.यू.

64434 दिल्ली जं.–गाजियाबाद ई.एम.य.

64419 हज़रत निज़ामुद्दीन-गाजियाबाद ई.एम.यू

64472 / 64534 पानीपत—नई दिल्ली—गाज़ियाबाद ई.एम.यू.		सब्जी मण्डी–दिल्ली जं.		21.07.10
***		दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद		21.07.19
			दीन–साहिबाबाद–गाजियाबाद	21.07.19
64902 गाजियाबाद—कोसी कलाँ ई.एम.यू.			बाद–हज़रत निज़ामुद्दीन	20.07.19
64903 मथुरा जं.—गाजियाबाद ई.एम.यू.		- 0		20 एवं 21.07.19
64904 गाजियाबाद—मथुरा जं. ई.एम.यू.			द—साहिबाबाद—ह. निज़ामुद्दीन	20.07.19
64168 टुण्डला—नई दिल्ली—पलवल ई.एम.यू.	लवल ई.एम.यू. साहिबाबाद—हज़रत निज़ामुद्दीन		21.07.19	
रेलगाड़ियों क	ग आशि	ोक नि	ारस् तीकरण	
रेलगाड़ी संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	स्टेशन जहां पर रेलगाड़ी समाप्त/ से प्रारंभ होगी		स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी आंशिक निरस्त रहेंगी	तिथि (याँ) (आरंभिक स्टेशन से)
12523 न्यू जलपाईगुड़ी—नई दिल्ली एक्सप्रेस	मुरादाबाद पर		मुरादाबाद–नई दिल्ली	20.07.19
12524 नई दिल्ली—न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस	मुरादा		नई दिल्ली–मुरादाबाद	21.07.19
12626 केरला एक्सप्रेस	ह. निज़ामुद्दीन से		नई दिल्ली–ह. निज़ामुद्दी	न 21.07.19
13414 फरक्का एक्सप्रेस	कानपुर से		दिल्ली जं.–कानपुर	20.07.19
13484 फरक्का एक्सप्रेस	कानपुर से		दिल्ली जं.–कानपुर	21.07.19
64017 पलवल—शकूर बस्ती ई.एम.यू.	ह. निज़ामुद्दीन पर		ह. निज़ामुद्दीन–शकूर बर	ती 21.07.19 तक
54767 श्री गंगानगर—तिलक ब्रिज पैसेंजर	पटेल नगर पर		पटेल नगर—तिलक ब्रिज	20.07.19
54768 तिलक ब्रिज—श्री गंगानगर पैसेंजर	पटेल नगर पर		तिलक ब्रिज-पटेल नग	र 20 एवं 21.07.19
54769 / 54770 तिलक ब्रिज—रोहतक—तिलक ब्रिज पैसेंजर	शकूर बस्ती से / पर		शकूर बस्ती–तिलक ब्रिज शकूर बस्ती	20 एवं 21.07.19
54474 सहारनपुर—दिल्ली जं. पैसेंजर	साहिबाबाद पर		साहिबाबाद—दिल्ली जं	21.07.19
54475 दिल्ली जं.—हरिद्वार पैसेंजर	नोली से		नोली–दिल्ली जं.	21.07.19
54540 अम्बाला–हजरत निज़ामुद्दीन पैसेंजर	मेरठ शहर पर		मेरठ शहर–ह.निज़ामुद्दी	7 20.07.19
54539 हजरत निज़ामुद्दीन—अम्बाला पैसेंजर	मेरठ शहर से		ह.निज़ामुद्दीन—मेरठ शह	₹ 21.07.19
64105 अलीगढ़—नई दिल्ली ई.एम.यू.	साहिबा	साहिबाबाद पर साहिबाबा		20.07.19
64106 नई दिल्ली—अलीगढ़ ई.एम.यू.	गाजिय	ाबाद से	नई दिल्ली–गाजियाबाव	20.07.19
64107 दनकौर—दिल्ली जं. ई.एम.यू.	गाजिया	बाद पर	गाजियाबाद–दिल्ली जं	. 20.07.19
64110 नई दिल्ली—अलीगढ़ ई.एम.यू.	साहिबा	बाद से	नई दिल्ली–साहिबाबाद	20.07.19
64113 खुर्जा—शकूर बस्ती ई.एम.यू.	गाजिया	गाजियाबाद पर गाजियाबाद-श		21.07.19
64151 अलीगढ़—दिल्ली जं. ई.एम.यू.	गाजियाबाद पर		गाजियाबाद–दिल्ली जं	20.07.19
64429 गाजियाबाद—नई दिल्ली ई.एम.यू.	साहिबाबाद पर		साहिबाबाद—नई दिल्ली	20.07.19
64461 / 64462 हज़रत निज़ामुद्दीन— कुरूक्षेत्र—हज़रत निज़ामुद्दीन ई.एम.यू.			नई दिल्ली–हज़रत निज़ामुद्दीन–नई दिल्ली	20.07.19
64905 मथुरा जं. नई दिल्ली ई.एम.यू.	पलवल पर		पलवल–नई दिल्ली	21.07.19
64084 नई दिल्ली—पलवल ई.एम.यू.	ह. निज़ामुद्दीन से		ह. निज़ामुद्दीन—नई दिल्ल	ी 21.07.19 तक

ह. निज़ामुद्दीन से ह. निज़ामुद्दीन—नई दिल्ली | 21.07.19 तक रेलगाड़ियों का विनियमन/पुनर्निर्धारण

रेलगाड़ी संख्या 12716 अमृतसर–हजूर साहिब नान्देड एक्सप्रेस अमृतसर से पुनर्निर्धारित होकर दिनांक 20.07.2019 को 120 मिनट विलंब से एवं दिनांक 21.07.2019 को 180 मिनट विलंब से प्रस्थान

रेलगाड़ी संख्या 16032 श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा—चेन्नई सेन्ट्रल अंडमान एक्सप्रेस दिनांक 20.07.2019 को सोनारपुर जं. पर 45 मिनट के लिए रोककर चलाई जायेगी।

नोटः अधिक जानकारी हेतु कृपया रेलवे पूछताछ नं. 139 से सम्पर्क करें या भारतीय रेल की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर सम्पर्क करें।



2338/





LIFESCIENCES

JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED (CIN: L24116UP1978PLC004624) aistered Office: Bhartlagram District Amroha-244223, Uttar Pradesh Phone: +91-5924-267200 E-mail: investors@jubl.com Website: www.jubl.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, July 26, 2019, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 (the 'Financial Results') in accordance with Regulation 33 of the Listing Regulations.

A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.jubl.com and the websites of the Stock Exchanges - NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited

Place: Noida Date: July 19, 2019

Rajiv Shah **Company Secretary**

उत्तर रेलवे पुनः निर्धारण नीलामी सूचना सं.-06

रद्द लोहा, अलोह, अन्य विविध स्क्रैप, कन्डम लोको कोचेज तथा वैगन्स, स्क्रैप रेल एवं अन्य रेल पथ सामग्री के निस्तारण हेतु ई-नीलामी की जायेगी। लैड एसिड बैटरीज/यूज्ड ऑयल/रियूज्ड ऑयल केवल उन्हीं सम्भारणकर्ताओं को बिक्री किया जायेगा जो कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन पंजीकृत होंगे। **नीलामी का** कार्यक्रम इस प्रकार है:-

सितम्बर 2019 की ई-नीलामी						
सं.	नीलामी करने	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
	वाला डिपो	चरण	चरण	चरण	चरण	चरण
1	आलमबाग/लखनऊ	02	09	18	23	-
2	शकुरबस्ती	04	11	18	25	-
3	जगाधरी वर्कशॉप	03	10	17	24	-
4	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/लखनऊ	05	12	19	26	-
5	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/फिरोजपुर	04	11	18	25	-
6	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/अम्बाला	05	12	19	26	-
7	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/मुरादाबाद	06	13	20	27	-
8	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/दिल्ली	02	09	18	23	-
नोट	नोट:- नीलामी में बेचे जाने वाले सामग्री का विवरण www.ireps.gov.in पर दिये					

कैटलॉग पर उपलब्ध होंगे। 1.0 इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामग्री को नीलामी के पूर्व नामित स्थान पर कार्य दिवस में देख सकते हैं। 2.0 पूर्व नीलामी में बेचे गये सामग्री का विवरण <u>www.nr.railnet.gov.in</u> पर उपलब्ध है। 3.0 ई—नीलामी में भाग लेने के लिए, क्रेता को ireps पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य नियम व शर्तों के लिए कृपया रेलवे बेवसाईट <u>www.ireps.gov.in</u> देखें। सं.: 117-एस/ऑक्शन प्रोग्राम/